

MANIT भोपाल द्वारा “स्ट्रेंथनिंग स्टूडेंट मेंटरिंग एंड मेंटल वेल-बीइंग” विषय पर पाँच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन

15-19 जून 2026

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MANIT), भोपाल द्वारा “Strengthening Student Mentoring and Mental Well-Being” विषय पर पाँच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (FDP) का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों की विद्यार्थी मेंटरिंग, परामर्श (Counselling) तथा मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। यह कार्यक्रम राज्य आनंद संस्थान, भोपाल के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें MANIT के विभिन्न शैक्षणिक विभागों से लगभग 100 संकाय सदस्य सहभागिता कर रहे हैं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के कल्याण, भावनात्मक सुदृढ़ता तथा समग्र शिक्षा से जुड़े समकालीन विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता प्रो. करुणेश कुमार शुक्ला, निदेशक, MANIT भोपाल द्वारा की गई। अपने संबोधन में उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य एवं प्रभावी मेंटरिंग की बढ़ती आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के भावनात्मक संतुलन, नैतिक मूल्यों तथा समग्र व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा एक सहयोगात्मक एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का निर्माण समय की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अखिलेश अर्गल (IFS) ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में मूल्य-आधारित शिक्षा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता एवं मार्गदर्शन (Mentorship) के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार एवं सशक्त युवाओं के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा विद्यार्थियों को शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत चुनौतियों से उबरने में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री प्रवीण कुमार गंगराड़े जी, निदेशक, राज्य आनंद संस्थान, मध्य प्रदेश, भोपाल, ने शिक्षा संस्थानों में आनंद, सकारात्मकता एवं मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। आपने शैक्षणिक परिवेश में भावनात्मक कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को समाहित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए शिक्षकों के लिए इस प्रकार के सार्थक कार्यक्रम के आयोजन हेतु MANIT की सराहना की।

कार्यक्रम को और अधिक समृद्ध बनाने हेतु डॉ. बी. के. शर्मा जी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा पाँच दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ सत्र प्रदान किए जा रहे हैं। उनके व्याख्यान मानसिक स्वास्थ्य, समग्र विकास, मेंटरिंग पद्धतियों, मानवीय मूल्यों तथा सकारात्मक परिसर वातावरण के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित हैं।

इस कार्यक्रम का समन्वयन प्रो. सुषमा गुप्ता, डीन फैकल्टी वेलफेयर एवं प्रो. विलास वरुडकर द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने कार्यक्रम की योजना एवं सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम के विभिन्न सत्र संकाय सदस्यों को प्रभावी छात्र मेंटरिंग, भावनात्मक सहयोग तथा समावेशी एवं स्वस्थ

शिक्षण वातावरण के निर्माण हेतु व्यावहारिक दृष्टिकोण एवं उपयोगी उपकरण प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

विशेषज्ञ व्याख्यानों, संवादात्मक चर्चाओं, मेंटरिंग रणनीतियों तथा मानसिक स्वास्थ्य सत्रों से युक्त यह पाँच दिवसीय कार्यक्रम **सहानुभूति, सकारात्मकता एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता** की संस्कृति को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। लगभग **100 संकाय सदस्यों की सहभागिता** के साथ यह कार्यक्रम MANIT भोपाल की **संकाय सशक्तिकरण एवं विद्यार्थियों के लिए बेहतर सहयोग प्रणाली विकसित करने की प्रतिबद्धता** को दर्शाता है।

यह कार्यक्रम एक ऐसे स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जहाँ विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक मार्गदर्शन ही नहीं, बल्कि उनके **समग्र विकास हेतु भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग** भी प्राप्त हो सकेगा।

शेष संकाय सदस्य इसी कार्यक्रम के **द्वितीय चरण** में **22-26 जून 2026** को उसी स्थान पर सहभागिता करेंगे। यह कार्यक्रम **उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (Department of Higher Education, Ministry of Education)** के अधिदेश (Mandate) के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य **बेहतर छात्र मार्गदर्शन (Student Mentoring) तथा मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण (Mental Well-Being)** को सुदृढ़ बनाना है।